



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.- 20012025-260334
CG-DL-E-20012025-260334

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2025/पौष 27, 1946

No. 37]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2025/PAUSHA 27, 1946

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2025

सा.का.नि. 66(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत, निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम 2007 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्ण किया गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत में निदेशक (समूह 'क') के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थातः -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: - (1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत, निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि. - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर।	चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक	1* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन स्तर-14 (144200-218200 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)			(8)		(9)
लागू नहीं होता।			लागू नहीं होता।		लागू नहीं होता।
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता।			प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।		
(10)			(11)		
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)			प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):		

I. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या कानूनी या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी:

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13क (131100-216600/-) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में दो वर्ष की सेवा की हो; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (123100-215900/-) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात्-
आवश्यक :

क (i) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की पहली या दूसरी अनुसूची में यथा सूचीबद्ध किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक या पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक की डिग्री।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पशु चिकित्सा विज्ञान औषधि या विषाणु विज्ञान या विकृति विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या प्रतिरक्षा विज्ञान या परजीवी विज्ञान या पशु चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य में मास्टर डिग्री;

(iii) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद/राज्य पशु चिकित्सा परिषद के पास रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए; और

(iv) अनुसंधान या प्रशासन या प्रशिक्षण या नीति निर्माण या शिक्षा और योजना में पंद्रह वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव टीके और अन्य जीव विज्ञान संबंधी क्षेत्र में अनुसंधान/ विनिर्माण/ विनियमन/ गुणवत्ता नियंत्रण में होना चाहिए।

या

ख (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सूक्ष्म जीव विज्ञान/ जीवाणु विज्ञान/ सीरम विज्ञान/ विषाणु विज्ञान/ रक्त रोग विज्ञान के क्षेत्र में स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री;

(ii) भारतीय चिकित्सा परिषद/राज्य चिकित्सा परिषद के पास रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए; और

(iii) अनुसंधान या प्रशासन या प्रशिक्षण या नीति निर्माण या शिक्षा और योजना में पंद्रह वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव टीके और अन्य जीव विज्ञान संबंधी क्षेत्र में अनुसंधान/ विनिर्माण/ विनियमन/ गुणवत्ता नियंत्रण में होना चाहिए।

वांछनीय :

(i) उपखंड (क) की मद (ii) या उपखंड (ख) की मद (i) में उल्लिखित किसी भी विषय में डॉक्टरेट की डिग्री।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है (अल्पकालिक अनुबंध सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं.ए-12018/52023-स्था. (मु.)]

डॉ. सुपर्णा शर्मा पचौरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING
(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2025

G.S.R. 66(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Institute of Animal Health, Baghpat, Director (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Group 'A') in the National Institute of Animal Health, Baghpat, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the National Institute of Animal Health, Baghpat, Director (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of these provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Director	1*	General Central	Level-14	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

	*(2024) subject variation dependent on workload.	to 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Service, Group (Rs. 144200-218200) in the pay matrix			
--	--	------------------------------------	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment, whether direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short term contract).	Deputation (including short term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory administrations or statutory or autonomous bodies or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutes: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 13A (131100-216600/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 13 (123100-215900/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- Essential: (A) (i) Bachelor of Veterinary Science or Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry Degree from a recognised University or Institute as listed in the first or second schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984); (ii) Master of Veterinary Science Medicine or Virology or Pathology or	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

			<p>Bacteriology or Microbiology or Immunology or Parasitology or Veterinary Public Health from a recognised University or Institute;</p> <p>(iii) should be registered with Veterinary Council of India or State Veterinary Council; and</p> <p>(iv) fifteen years experience in research or administration or training or policy making or education and planning, out of which, atleast five years should be in the research or manufacture or regulation or quality control in the field of vaccines and other biologicals. or</p> <p>(B) (i) Post graduate medical degree in the field of Microbiology or Bacteriology or Serology or Virology or Hematology from a recognised University or Institute;</p> <p>(ii) should be registered with Medical Council of India or State Medical Council; and</p> <p>(iii) fifteen years experience in research or administration or training or policy making or education and planning, out of which, atleast five years should be in the research or manufacture or regulation or quality control in the field of vaccines and other biologicals.</p> <p>Desirable :</p> <p>(i) A Doctorate degree in any of the subjects mentioned in item (ii) of sub-clause (A) or item (i) of sub-clause (B).</p> <p>Note 1: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceed fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

[F. No. A-12018/52023-Estt.(HQ)]

DR. SUPARNA SHARMA PACHOURI, Jt. Secy.